



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बड़ी चन्द्रिका देवी के प्राचीन मन्दिर में पूजा अर्चना कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी चन्द्रिका देवी जी का प्राचीन मंदिर महोबा में स्थित है, नवरात्रि के दौरान स्थानीय निवासियों के साथ-साथ यहाँ मिलों दूर से हज़ारों श्रद्धालु मत्था टेकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने आते हैं।

जनपद में स्थित बड़ी चन्द्रिका देवी जी के प्राचीन मंदिर में आज दिनांक 07.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना कर जनपदवासियों के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सम्पन्नता व आरोग्यता के लिये प्रार्थना की गयी एवं वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा इंतजामों के दृष्टिगत सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण/ निरीक्षण करते हुये व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा बलराम सिंह को सुरक्षा के दृष्टिगत समुचित पुलिस प्रबन्धन करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे यहां आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पडे साथ ही यहां की देखरेख कर रहे पदाधिकारी से सुरक्षा के दृष्टिगत वार्ता की गयी व सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में अभियान के दृष्टिगत प्र0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2021 धारा 147/323/325/504/506/308 IPC से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त श्यामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 देवकीनन्दन यादव उम्र करीब 45 वर्ष को श्रीनगर तिराहा बेलाताल के पास से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

श्यामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 देवकीनन्दन यादव उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम मवईया थाना अजनर जिला महोबा

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ(चौकी प्रभारी बेलाताल)पुरुषोत्तम विश्वकर्मा 0नि0
2. हेकन्हैयालाल 0कां0
3. कांउमाशंकर पटेल 0





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **कोतवाली पुलिस टीम ने 05 किग्रा0 अवैध गांजा के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आरके गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के मार्गदर्शन में अवैध शराब, गांजा के विरुद्ध चलाये जा रहे बरामदगी अभियान

के तहत आज दिनांक 07.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर **अभियुक्त 1. अर्जुन साहू पुत्र दुलीचन्द्र साहू उम्र 26 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली जिला महोबा के पास से 5 कि0ग्रा0 अवैध सूखा गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया** जिसके विरुद्ध **थाना हाजा पर मु0अ0सं0 425/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर** माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

अर्जुन साहू पुत्र दुलीचन्द्र साहू उम्र 26 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली जिला महोबा

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 अनमोल सिंह
2. का0 उमेश चन्द्र
3. का0 रंजीत सिंह



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



**यूपी ११२ मुख्यालय लखनऊ से आयी, प्रचार-प्रसार की टीम ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में जनपद में रेलवे स्टेशन पर नुककड़ नाटक कर, एलईडी वैन से लघु फ़िल्में दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया**

**क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पीआरवी 2595 के कर्मियों को तथा पुलिस मित्र के रूप में पुलिस की सहायता करने के लिए आटो चालक को सम्मानित किया गया**



आज दिनांक 07/10/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन व श्री राम प्रवेश पुलिस उपाधीक्षक नगर के कुशल मार्ग दर्शन में **यूपी ११२ मुख्यालय** लखनऊ से आयी, प्रचार-प्रसार की टीम तथा

प्रभारी यूपी ११२ की टीम ने संयुक्त रूप से जनपद में दो दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत महोबा रेलवे स्टेशन पर नुककड़ नाटक से किया। जिसमें यात्रियों को **यूपी ११२** की विभिन्न सेवाओं से रूबरू कराया गया और यह भी बताया गया कि चलती ट्रेन या रेलवे प्लेटफार्म पर किसी भी आकस्मिक स्थिति में ११२ नम्बर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात बस स्टैंड पर नुककड़ नाटक व एलईडी वैन से लघु फ़िल्में दिखाकर जागरूक किया गया। सराहनीय कार्य करने वाली **पीआरवी 2595** पर तैनात कर्मियों को क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय सम्मानित किया गया। प्रभारी जीआरपी श्री



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस



**मीडिया सेल, महोबा**

हरिओम मिश्रा की उपस्थिति में ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की बॉडी को उठाने वाले ऑटो चालक इसरार मोहम्मद को क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय द्वारा सम्मानित किया गया। प्रभारी मीडिया सेल श्री करुणा शंकर सिंह द्वारा इसरार मोहम्मद को **500/** रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया, जिसका भारी मात्रा में यात्रियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इसके बाद परमानंद चौक पर नुककड़ नाटक कर नागरिकों को **आपात सेवा 112** की विभिन्न सेवाओं से जागरूक किया गया। मीडिया सेल प्रभारी 112 मुख्यालय लखनऊ ने नागरिकों को बताया कि आग लगने, एंबुलेंस की आवश्यकता होने, पुलिस सहायता तथा प्राकृतिक आपदा के समय **112** से संपर्क कर मदद ली जा सकती है। 112 से विभिन्न माध्यमों फोन करके, व्हाट्सएप (**7570000100**), एसएमएस (**7233000100**), ट्विटर, फेसबुक, इंटाग्राम आदि सोशल मीडिया पर भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय व प्रभारी 112, महोबा श्री गया

चरण यादव व उनकी टीम भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया सेल प्रभारी **यूपी 992** व चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



**महिला थाना प्रभारी शिल्पी शुक्ला द्वारा महोबा शहर के वनस्टॉप सेंटर के चेक किया गया एवं एण्टीरोमियो टीमों द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति किया गया जागरुक...।**



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 07.10.2021 को महिला थाना प्रभारी उ०नि० शिल्पी शुक्ला द्वारा मुख्यालय के वनस्टॉप सेंटर को चेक किया गया तथा बालिकाओं को उनकी सुरक्षा संबंधी अधिकारों के प्रति किया जागरुक एवं अन्य पुलिस टीम द्वारा अन्य पुलिस टीमों द्वारा जनपद स्तर पर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों प्रति जागरुक किया

गया। बालिकाओं/छात्राओं से पूछा जा रहा है कि वह कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर मनचलों द्वारा उनको परेशान किया जाता है/फब्तियां कसी जाती हैं तथा कहां पर छात्राओं को एण्टीरोमियो टीम की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती हैं ..? जिससे ऐसे स्थानों को चयनित कर शोहदों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

इसी क्रम में एण्टी रोमियो टीम द्वारा सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक भी किया जा रहा है जिसमें उनको हेल्पलाइन नम्बरों वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, सभी को साइबर अपराध हेल्पलाइन- 155260 एवं महिला कानूनों के साथ-साथ सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना महोबकंठ में अर्दलीरुम किया गया

लंबित विवेचनाओं का समय से करे निस्तारण- क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़



आज दिनांक 07.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र द्वारा थाना महोबकंठ का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उ0नि0 के साथ अर्दलीरुम किया गया, अर्दली रुम के दौरान लंबित विवेचनाओं, आइजीआरएस में लंबित प्राथना पत्र को समय से निस्तारण करने तथा महिला संबंधी अपराधों को प्राथमिकता के साथ समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। कोविड केयर हेल्प डेस्क और साथ ही महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई थाना स्तर पर जो भी शिकायतें आई हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, कंप्यूटर में भीड किया जा रहा है और पावती दी जा रही है, थाना महोबकंठ में क्राइम की

समीक्षा की गई है जिसमें महिला अपराध से सम्बन्धित कुछ मामलों में वांछित जो प्रीवेंटिव कार्यवाही हैं उसको बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है सीसीटीएनएस और जो रिकॉर्ड से अप टू डेट है।

तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसमें रजि0नं0-4 व 8 तथा फलाई शीट, भूमि-विवाद रजि0, महिला उत्पीड़न रजि0, एससी/एसटी उत्पीड़न रजि0, माल रजि0 सहित आदि रजिस्ट्रो को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया गया जिसमें निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था को अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे जनपदीय पुलिस के जवानों की रहने सम्बन्धी असुविधा को दूर किया जा सके।

इस दौरान थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील तिवारी, थानाकार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 07.10.2021**

# महोबा पुलिस



**मीडिया सेल, महोबा**


**क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा महोबा शहर में एवं जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त कर की गई संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग**



आज दिनांक 07.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा मय थाना कोतवाली नगर में पुलिस बल के साथ कस्बा गस्त संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनों को चेक किया एवं समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की

गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर 139 ई-चालान किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर 04 व्यक्तियों से 400 रु0 वसूला गया।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 07.10.2021

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police